



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 अगस्त, 2021

श्रावण 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 638/79-वि-1-21-2-क-6-2021

लखनऊ, 4 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2021) जिससे विधायी अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2021)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

कतिपय अधिनियमितियों जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है :

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

कतिपय
अधिनियमितियों
का निरसन
व्यावृत्ति

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्वारा निरसित की जाती हैं।

3-इस अध्यादेश द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, -

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अध्यादेश द्वारा निरसित न किये गये हों।

अनुसूची

(धारा-2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1894 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1894)
2	कैनिंग कॉलेज कान्ट्रीब्यूशन अधिनियम, 1920 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1920)
3	कैनिंग कॉलेज अधिनियम, 1922 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1922)
4	नॉइक गर्ल्स प्रोटेक्शन अधिनियम, 1929 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1929)
5	उत्तर प्रदेश मॉइनर गर्ल्स प्रोटेक्शन अधिनियम, 1929 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1929)
6	उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर अधिनियम, 1932 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1932)
7	संयुक्त प्रान्त ओपियम स्मोकिंग अधिनियम, 1934 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1934)

8	कुमायूँ एनीमल ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1947)
9	संयुक्त प्रान्त में शरणार्थियों की रजिस्ट्री और गतिविधि का अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1948)
10	उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ सप्लाइज (कन्टीन्यूएन्स ऑफ पावर) अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1948)
11	संयुक्त प्रान्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1949)
12	उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1950)
13	उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1950)
14	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1950)
15	उत्तर प्रदेश प्रान्तीय आर्मड कांन्स्टेबुलरी (आयति प्रसार) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1950)
16	उत्तर प्रदेश सिचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1951)
17	उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1951)
18	उत्तर प्रदेश मेन्टीनेंस आफ पब्लिक आर्डर का निवर्तन अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1951)
19	उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1951)
20	औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1951)
21	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1952)
22	उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिक (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1952)
23	उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, सन् 1952)
24	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1953)
25	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1953)
26	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1954)
27	उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1955)
28	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों, (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1956)

29	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1957)
30	उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1957)
31	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1957 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1957)
32	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1958)
33	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1958)
34	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1959)
35	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1960)
36	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1960)
37	उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1961)
38	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री और सभा सचिवों (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1961)
39	उत्तर प्रदेश सेल्स ऑफ मोटर स्प्रीट टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1961)
40	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेसन (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1962)
41	उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1963)
42	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1963)
43	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1963)
44	उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1964)
45	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1964)
46	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1966)
47	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1966)
48	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1966)
49	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1966)

50	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1966)
51	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1966)
52	उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा जिला पंचायत (कार्यवधि का विस्तार) अधिनियम, 1968 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1968)
53	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (री इन्फेक्टमेन्ट एण्ड कान्टीन्यूएन्स) अधिनियम, 1968 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1968)
54	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1969)
55	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1970)
56	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1970)
57	उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, सन् 1970)
58	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1971)
59	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1972)
60	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1972)
61	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, सन् 1972)
62	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, सन् 1972)
63	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1973)
64	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1974)
65	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1974)
66	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1974)
67	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1974)
68	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1975)
69	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1975)
70	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1975)
71	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1976)

72	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1976)
73	उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1976)
74	उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1976)
75	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1976)
76	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 1976)
77	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, सन् 1976)
78	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1977)
79	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1977)
80	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1978)
81	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1978)
82	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1978)
83	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1978)
84	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेसन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1978)
85	उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1978)
86	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1978)
87	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1979)
88	उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1979)
89	उत्तर प्रदेश मोटर गाडी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1979)
90	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1979)
91	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1979)
92	उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1979)

93	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 1980)
94	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1980)
95	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1980)
96	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1980)
97	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1981)
98	उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1981)
99	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1982)
100	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1982)
101	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1982)
102	उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1982)
103	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1982)
104	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1983)
105	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1983)
106	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1983)
107	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1983)
108	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1983)
109	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1984)
110	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1984)

111	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1984)
112	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984)
113	उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1984)
114	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1985)
115	उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1985)
116	उत्तर प्रदेश मोटर गाडी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1985)
117	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1985)
118	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1985)
119	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1985)
120	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1985)
121	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1985)
122	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1986)
123	उत्तर प्रदेश मोटर स्पिंट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1986)
124	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1986)
125	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986)
126	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1986)
127	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1986)
128	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1986)
129	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1987)
130	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1987)

131	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1987)
132	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1987)
133	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1987)
134	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1987)
135	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1988)
136	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1988)
137	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1988)
138	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1988)
139	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1988)
140	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1989)
141	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1989)
142	मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1989)
143	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1989)
144	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियाँ विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1989)
145	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1989)
146	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1989)
147	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1989)
148	उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1989)
149	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1990)
150	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1990)

151	उत्तर प्रदेश मंत्री, राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1990)
152	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1990)
153	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1990)
154	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1990)
155	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1990)
156	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1990)
157	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1990)
158	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1991)
159	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1991)
160	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1991)
161	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1991)
162	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1991)
163	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1991)
164	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1991)
165	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1991)
166	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1992)
167	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1992)
168	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1992)
169	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (अंशों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1992)
170	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1992)
171	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1992)

172	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1992)
173	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1992)
174	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1993)
175	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1993)
176	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1993)
177	उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1994)
178	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1994)
179	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1994)
180	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1994)
181	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1994)
182	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1995)
183	उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1995)
184	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1995)
185	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1995)
186	उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1995)
187	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1995)
188	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1995)
189	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1995)
190	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1997)
191	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1997)

192	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1997)
193	उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1997)
194	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1997)
195	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1997)
196	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1997)
197	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1998)
198	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1998)
199	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1998)
200	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1998)
201	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1998)
202	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1998)
203	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1998)
204	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1999)
205	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1999)
206	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1999)
207	उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1999)
208	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1999)
209	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 1999)
210	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2000)
211	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2000)

212	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2000)
213	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2000)
214	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2000)
215	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2000)
216	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2000)
217	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2000)
218	उत्तर प्रदेश मोटर स्ट्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2000)
219	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2000)
220	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2000)
221	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (अपव्यय का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 2000)
222	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 2000)
223	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2001)
224	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2001)
225	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2001)
226	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 2001)
227	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2001)
228	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2001)
229	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2001)
230	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2001)
231	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2002)

232	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2002)
233	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1997)
234	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2003)
235	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2003)
236	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 2003)
237	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2004)
238	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2004)
239	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2004)
240	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 2004)
241	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2004)
242	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2004)
243	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2004)
244	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2004)
245	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2004)
246	उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2004)
247	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (निरसन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2005)
248	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2005)
249	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2005)
250	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2005)
251	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2005)
252	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

	संख्या 19, सन् 2005)
253	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2005)
254	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2006)
255	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2006)
256	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2006)
257	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2006)
258	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2006)
259	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, सन् 2006)
260	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 2006)
261	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 2007)
262	उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2007)
263	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2007)
264	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2007)
265	उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2007)
266	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2007)
267	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2007)
268	उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2007)
269	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2007)
270	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2007)
271	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2007)
272	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2007)

273	उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, सन् 2007)
274	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, सन् 2007)
275	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 2007)
276	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2008)
277	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2008)
278	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2008)
279	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2008)
280	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2008)
281	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2008)
282	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2008)
283	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2008)
284	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2008)
285	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2009)
286	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2009)
287	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2009)
288	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2009)
289	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2009)
290	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2009)
291	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2009)
292	उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2009)
293	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2010)

294	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2010)
295	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2013)
296	उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2013)
297	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2013)
298	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 2013)
299	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 2013)
300	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2013)
301	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2013)
302	उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2014)
303	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2014)
304	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2014)
305	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 2014)
306	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2015)
307	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2015)
308	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2016)
309	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2016)
310	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2016)
311	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016)
312	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2017)

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,

No. 638(2)/LXXIX-V-1-21-2-ka-6-2021

Dated Lucknow, August 4, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2021) promulgated by the Governor. The Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REPEALING ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 6 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE*to repeal certain enactments that have become obsolete and redundant in the recent times.*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title
Repeal of
certain
enactments
Savings

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Repealing Ordinance, 2021.

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

3. The repeal by this Ordinance of any enactment shall not :-

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Ordinance.

SCHEDULE

(See section 2)

Acts being repealed

1	Validation of Registration Act, 1894 (Act no. 4 of 1894)
2	The Canning College Contribution Act, 1920 (U.P. Act no. 4 of 1920)
3	The Canning College Act, 1922 (U.P. Act no. 7 of 1922)
4	Naik Girls Protection Act, 1929 (U.P. Act no. 2 of 1929)
5	The Uttar Pradesh Minor Girls Protection Act, 1929 (U.P. Act no. 8 of 1929)
6	The Uttar Pradesh Special Powers Act, 1932 (U.P. Act no. 14 of 1932)
7	The United Provinces Opium Smoking Act, 1934 (U.P. Act no. 3 of 1934)

8	The Kumaun Animal Transport Control Act, 1947 (U.P. Act no. 15 of 1947)
9	The Uttar Pradesh Refugees Registration and Movements Act, 1947 (U.P. Act no. 7 of 1948)
10	The United Provinces Control of Supplies (Continuance of Power) Act, 1948 (U.P. Act no. 43 of 1948)
11	The United Provinces Shops and Commercial Establishment (Amendment) Act, 1948 (U.P. Act no. 1 of 1949)
12	The Uttar Pradesh Intermediate Education (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 4 of 1950)
13	The Uttar Pradesh (Temporary) Accommodation Requisition (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 13 of 1950)
14	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 25 of 1950)
15	The Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary (Extension of Application) Act, 1950 (U.P. Act no. 27 of 1950)
16	The Uttar Pradesh Irrigation (Emergency Powers) Act, 1950 (U.P. Act no. 3 of 1951)
17	The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 10 of 1951)
18	The Uttar Pradesh Repeal of the Maintenance of Public Order Act, 1950 (U.P. Act no. 11 of 1951)
19	The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 12 of 1951)
20	The Industrial Disputes (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1951 (U.P. Act no. 25 of 1951)
21	The Uttar Pradesh Prohibition of Simultaneous Membership of Legislature (Supplementary) Act, 1952 (U.P. Act no. 5 of 1952)
22	The Uttar Pradesh Public Gambling (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 34 of 1952)
23	UP Habitual Offenders (Restriction) Act, 1952 (U.P. Act no. 38 of 1952)
24	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 9 of 1953)
25	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1953 (U.P. Act no. 23 of 1953)
26	The Uttar Pradesh Legislature Members (National Plan Loan) (Prevention of Disqualification) Act, 1954 (U.P. Act no. 23 of 1954)
27	The Uttar Pradesh Road Transport Services (Development) Act, 1955 (U.P. Act no. 9 of 1955)
28	The Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers Parliamentary Secretaries and Members (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (U.P. Act no. 8 of 1956)
29	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (U.P. Act no. 1 of 1957)
30	The Uttar Pradesh Women's and Children's Institutions (Control) Act, 1956 (U.P. Act no. 2 of 1957)
31	The Uttar State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1957 (U.P. Act no. 25 of 1957)
32	The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958 (U.P. Act no. 22 of 1958)
33	The Intermediate Education (Amendment) Act, 1958 (U.P. Act no. 35 of 1958)
34	The Intermediate Education (Amendment) Act, 1959 (U.P. Act no. 6 of 1959)
35	The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Supplementary) (Amendment) Act, 1960 (U.P. Act no. 5 of 1960)

36	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 (U.P. Act no. 16 of 1960)
37	The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Sanshodhan) Act, 1961 (U.P. Act no. 7 of 1961)
38	The Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Ke Adhikari, Mantri, Up-Mantri, Aur Sabha Sachivon (Vetan Tatha Bhatta Aur Parkina UP-Bandh) Act, 1961 (U.P. Act no. 8 of 1961)
39	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Act, 1961 (U.P. Act no.11 of 1961)
40	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 10 of 1962)
41	The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963 (U.P. Act no. 4 of 1963)
42	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1963 (U.P. Act no. 15 of 1963)
43	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1963 (U.P. Act no. 25 of 1963)
44	The Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 7 of 1964)
45	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1964 (U.P. Act no. 13 of 1964)
46	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1966 (U.P. Act no. 2 of 1966)
47	The Intermediate Education (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966 (U.P. Act no. 7 of 1966)
48	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1966 (U.P. Act no. 12 of 1966)
49	The Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Ke Adhikariyon Aur Sadasyon, Mantriyon, Up-Mantriyon Aur Sabha Sachivon (Ke Vetan Tatha Bhatton aur Parkirna UP-Bandh) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966 (U.P. Act no. 13 of 1966)
50	The Uttar Pradesh Khadi Tatha Gram Udyog Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966 (U.P. Act no. 24 of 1966)
51	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1966 (U.P. Act no. 26 of 1966)
52	The Uttar Pradesh Gaon Panchayats and Kshettra Samities (Extension of Term) Act, 1968 (U.P. Act no. 14 of 1968)
53	The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Re-Enactment and Continuance) Act, 1968 (U.P. Act no. 19 of 1968)
54	The Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers Parliamentary Secretaries and Members (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1969 (U.P. Act no. 7 of 1969)
55	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 3 of 1970)
56	The Uttar Pradesh State Legislature (Officers, Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1970 (U.P. Act no. 32 of 1970)
57	The Uttar Pradesh Vritti Vyapar, Ajivika Aur Sewayojan Kar (Nirsan) Adhiniyam, 1970 (U.P. Act no. 36 of 1970)
58	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1971 (U.P. Act no. 28 of 1971)
59	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 18 of 1972)
60	The Intermediate Education (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 29 of 1972)
61	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 40 of 1972)
62	The Uttar Pradesh State Legislature (Officers, Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1972 (U.P. Act no. 41 of 1972)
63	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Act, 1973

	(U.P. Act no.12 of 1973)
64	The Uttar Pradesh Legislative Assembly Speakers Pension Act, 1974 (U.P. Act no. 10 of 1974)
65	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 11 of 1974)
66	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit and Diesel Oil Taxation (Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no.12 of 1974)
67	The Uttar Pradesh Sheera Niyamtran (Sanshodhan) Adhiniyam,1974 (U.P. Act no. 15 of 1974)
68	The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1975 (U.P. Act no. 14 of 1975)
69	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Amendment) Act, 1975 (U.P. Act no. 23 of 1975)
70	The Uttar Pradesh Secondary Education Laws (Amendment) Act, 1975 (U.P. Act no. 26 of 1975)
71	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 8 of 1976)
72	The Uttar Pradesh State Legislature Proceeding (Protection of Publication) (Repeal) Act, 1976 (U.P. Act no. 9 of 1976)
73	The Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 (U.P. Act no. 12 of 1976)
74	The Uttar Pradesh Educational Institutions (Taking Over of Management) Act, 1976 (U.P. Act no. 18 of 1976)
75	The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976 (U.P. Act no. 27 of 1976)
76	The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 39 of 1976)
77	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Second Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 49 of 1976)
78	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1976 (U.P. Act no. 1 of 1977)
79	The Uttar Pradesh Education Laws (Amendment) Act, 1977 (U.P. Act no. 5 of 1977)
80	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1978(U.P. Act no. 8 of 1978)
81	The Uttar Pradesh Education Laws (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 12 of 1978)
82	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 14 of 1978)
83	The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (U.P. Act no. 25 of 1978)
84	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 29 of 1978)
85	The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 32 of 1978)
86	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1978 (U.P. Act no. 34 of 1978)
87	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (U.P. Act no. 11 of 1979)
88	The Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 14 of 1979)
89	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Laws (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 16 of 1979)
90	The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 29 of 1979)
91	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment)

	Act, 1979 (U.P. Act no. 32 of 1979)
92	The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 33 of 1979)
93	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1980 (U.P. Act no. 3 of 1980)
94	The Uttar Pradesh Motor Gari (Mal-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (U.P. Act no. 4 of 1980)
95	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (U.P. Act no. 7 of 1980)
96	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1980 (U.P. Act no. 13 of 1980)
97	The Uttar Pradesh Motor Gari (Yatri-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (U.P. Act no. 15 of 1981)
98	The Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) (Amendment) Act, 1981 (U.P. Act no. 17 of 1981)
99	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1982 (U.P. Act no. 2 of 1982)
100	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (U.P. Act no. 15 of 1982)
101	The Uttar Pradesh Essential Services Maintenances (Amendment) Act, 1982 (U.P. Act no. 16 of 1982)
102	The Uttar Pradesh Rashtra Virodgi Tatwa Niwaran (Nirsan) Adhiniyam, 1982 (U.P. Act no. 24 of 1982)
103	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (U.P. Act no. 27 of 1982)
104	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (U.P. Act no. 1 of 1983)
105	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (U.P. Act no. 8 of 1983)
106	The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1983 (U.P. Act no. 11 of 1983)
107	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (U.P. Act no. 18 of 1983)
108	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1983 (U.P. Act no. 26 of 1983)
109	The Intermediate Education (Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 6 of 1984)
110	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 13 of 1984)
111	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 20 of 1984)
112	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 21 of 1984)
113	The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1984 (U.P. Act no. 22 of 1984)
114	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (U.P. Act no. 2 of 1985)
115	The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 6 of 1985)
116	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 10 of 1985)
117	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 13 of 1985)
118	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (U.P. Act no. 14 of 1985)

119	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 19 of 1985)
120	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment and Validation) Act, 1985 (U.P. Act no. 21 of 1985)
121	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1985 (U.P. Act no. 28 of 1985)
122	The Uttar Pradesh Sheera Niyantaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (U.P. Act no. 5 of 1986)
123	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1986 (U.P. Act no. 6 of 1986)
124	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (U.P. Act no. 11 of 1986)
125	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1986 (U.P. Act no. 13 of 1986)
126	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (U.P. Act no. 16 of 1986)
127	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1986 (U.P. Act no. 22 of 1986)
128	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1986 (U.P. Act no. 25 of 1986)
129	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1987 (U.P. Act no. 6 of 1987)
130	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (U.P. Act no. 10 of 1987)
131	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1987 (U.P. Act no. 16 of 1987)
132	The Intermediate Education (Amendment) Act, 1987 (U.P. Act no. 18 of 1987)
133	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (U.P. Act no. 20 of 1987)
134	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1987 (U.P. Act no. 21 of 1987)
135	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (U.P. Act no. 6 of 1988)
136	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1988 (U.P. Act no. 10 of 1988)
137	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1988 (U.P. Act no. 17 of 1988)
138	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (U.P. Act no. 18 of 1988)
139	The Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (U.P. Act no. 20 of 1988)
140	The Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (U.P. Act no. 2 of 1989)
141	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 6 of 1989)
142	The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 8 of 1989)
143	The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 13 of 1989)
144	The Uttar Pradesh State Legislature Members, Ministers and Parliamentary Secretaries Emoluments Laws (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 15 of 1989)
145	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (U.P. Act no. 22 of 1989)
146	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 23 of 1989)

147	The Uttar Pradesh Education Laws (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 26 of 1989)
148	The Uttar Pradesh Official Language (Amendment) Act, 1989 (U.P. Act no. 28 of 1989)
149	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (U.P. Act no. 3 of 1990)
150	The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 4 of 1990)
151	The Uttar Pradesh Ministers, State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 5 of 1990)
152	The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 6 of 1990)
153	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (U.P. Act no.10 of 1990)
154	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (U.P. Act no. 11 of 1990)
155	The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Second Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 16 of 1990)
156	The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1990 (U.P. Act no. 17 of 1990)
157	The Uttar Pradesh Road Transport Schemes (Validation) Act, 1990 (U.P. Act no. 21 of 1990)
158	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1991 (U.P. Act no. 3 of 1991)
159	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment and Validation) Act, 1991 (U.P. Act no. 8 of 1991)
160	The Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (U.P. Act no. 11 of 1991)
161	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1991 (U.P. Act no. 15 of 1991)
162	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (U.P. Act no. 16 of 1991)
163	The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (U.P. Act no. 20 of 1991)
164	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (U.P. Act no. 21 of 1991)
165	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1991 (U.P. Act no. 26 of 1991)
166	The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (U.P. Act no. 5 of 1992)
167	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 7 of 1992)
168	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 10 of 1992)
169	The Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1992 (U.P. Act no. 12 of 1992)
170	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 13 of 1992)
171	The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 15 of 1992)
172	The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 21 of 1992)
173	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Second Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 24 of 1992)
174	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 1 of 1993)

175	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment and Validation) Act, 1993 (U.P. Act no. 7 of 1993)
176	The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Act, 1993 (U.P. Act no. 8 of 1993)
177	The Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) (Repeal) Act, 1994 (U.P. Act no. 2 of 1994)
178	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (U.P. Act no. 6 of 1994)
179	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1994 (U.P. Act no. 11 of 1994)
180	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1994 (U.P. Act no. 16 of 1994)
181	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1994 (U.P. Act no. 21 of 1994)
182	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (U.P. Act no. 2 of 1995)
183	The Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 5 of 1995)
184	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 9 of 1995)
185	The Uttar Pradesh Sheera Nyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (U.P. Act no. 10 of 1995)
186	The Uttar Pradesh Tax on Luxuries Act, 1995 (U.P. Act no. 11 of 1995)
187	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 15 of 1995)
188	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 23 of 1995)
189	The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1995 (U.P. Act no. 27 of 1995)
190	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 3 of 1997)
191	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 4 of 1997)
192	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 5 of 1997)
193	The Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 8 of 1997)
194	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 11 of 1997)
195	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 15 of 1997)
196	The Uttar Pradesh Rural Housing Board (Amendment) Act, 1997 (U.P. Act no. 17 of 1997)
197	The Uttar Pradesh Sheera Nyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (U.P. Act no. 4 of 1998)
198	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 1998 (U.P. Act no. 6 of 1998)
199	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 17 of 1998)
200	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 25 of 1998)
201	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 26 of 1998)
202	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 27 of 1998)

203	The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 1998 (U.P. Act no. 30 of 1998)
204	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 5 of 1999)
205	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 7 of 1999)
206	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 13 of 1999)
207	The Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal (Nirsan) Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 28 of 1999)
208	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 30 of 1999)
209	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 31 of 1999)
210	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 4 of 2000)
211	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 5 of 2000)
212	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 6 of 2000)
213	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 9 of 2000)
214	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 2000 (U.P. Act no. 10 of 2000)
215	The Uttar Pradesh Sheera Niyantaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (U.P. Act no. 17 of 2000)
216	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 20 of 2000)
217	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 21 of 2000)
218	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 24 of 2000)
219	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 25 of 2000)
220	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 27 of 2000)
221	The Uttar Pradesh Hindu Religious Institution (Prevention of Dissipation of Properties) (Repeal) Act, 2000 (U.P. Act no. 31 of 2000)
222	The Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2000 (U.P. Act no. 35 of 2000)
223	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 5 of 2001)
224	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (U.P. Act no. 10 of 2001)
225	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment and Validation) Act, 2001 (U.P. Act no. 11 of 2001)
226	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 13 of 2001)
227	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 14 of 2001)
228	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 25 of 2001)
229	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 26 of 2001)
230	The Uttar Pradesh State Commission for the Backward Classes (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 28 of 2001)

231	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2002 (U.P. Act no. 6 of 2002)
232	The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (U.P. Act no. 17 of 2002)
233	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 3 of 2003)
234	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 4 of 2003)
235	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 5 of 2003)
236	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 12 of 2003)
237	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 2004 (U.P. Act no. 3 of 2004)
238	The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 10 of 2004)
239	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 14 of 2004)
240	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 15 of 2004)
241	The Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 17 of 2004)
242	The Uttar Pradesh Trade Tax (Third Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 18 of 2004)
243	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 21 of 2004)
244	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 22 of 2004)
245	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 28 of 2004)
246	The Uttar Pradesh Repealing Act, 2004 (U.P. Act no. 32 of 2004)
247	The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Repeal) Act, 2005 (U.P. Act no. 6 of 2005)
248	The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel, Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 7 of 2005)
249	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 9 of 2005)
250	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 10 of 2005)
251	The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 18 of 2005)
252	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 19 of 2005)
253	The Uttar Pradesh State Legislature (Members and Officers Amenities Laws) (Amendment) Act, 2005 (U.P. Act no. 21 of 2005)
254	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 3 of 2006)
255	The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 5 of 2006)
256	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 7 of 2006)
257	The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 10 of 2006)
258	The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 18 of 2006)
259	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 37 of 2006)

260	The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 39 of 2006)
261	The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 2 of 2007)
262	The Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teacher and other Employees) (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 3 of 2007)
263	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 4 of 2007)
264	The Uttar Pradesh Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 10 of 2007)
265	The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Association) (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 14 of 2007)
266	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 16 of 2007)
267	The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 19 of 2007)
268	The Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 20 of 2007)
269	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 22 of 2007)
270	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 24 of 2007)
271	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 27 of 2007)
272	The Uttar Pradesh Technical University (Second Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 28 of 2007)
273	The Uttar Pradesh Senior Officers Residences (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 36 of 2007)
274	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 37 of 2007)
275	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 39 of 2007)
276	The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 1 of 2008)
277	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Third Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 4 of 2008)
278	The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 6 of 2008)
279	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 7 of 2008)
280	The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 9 of 2008)
281	The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 11 of 2008)
282	The Intermediate Education (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 16 of 2008)
283	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 19 of 2008)
284	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Second Amendment) Act, 2008 (U.P. Act no. 25 of 2008)
285	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 8 of 2009)
286	The Uttar Pradesh Sheera Niyam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (U.P. Act no. 10 of 2009)
287	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 11 of 2009)
288	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 18 of 2009)
289	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 19 of 2009)

290	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 21 of 2009)
291	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 22 of 2009)
292	The Uttar Pradesh Rakshak Dal (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 24 of 2009)
293	The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010 (U.P. Act no. 5 of 2010)
294	The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2010 (U.P. Act no. 9 of 2010)
295	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 4 of 2013)
296	The Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Act, 2012 (U.P. Act no. 7 of 2013)
297	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 11 of 2013)
298	The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Second Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 12 of 2013)
299	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 15 of 2013)
300	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 18 of 2013)
301	The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 19 of 2013)
302	The Uttar Pradesh Vocational Education and Training (Repeal) Act, 2014 (U.P. Act no. 6 of 2014)
303	The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2014 (U.P. Act no. 9 of 2014)
304	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2014 (U.P. Act no. 21 of 2014)
305	The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2014 (U.P. Act no. 23 of 2014)
306	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act no. 1 of 2015)
307	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act no. 3 of 2015)
308	The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2016 (U.P. Act no. 7 of 2016)
309	The Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social Activities (Prevention) (Amendment) Act, 2015 (U.P. Act no. 14 of 2016)
310	The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2016 (U.P. Act no. 18 of 2016)
311	The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016 (U.P. Act no. 21 of 2016)
312	The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2017 (U.P. Act no. 4 of 2017)

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.